

# Lev

## Chapter 16

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1  
לְפָנֶי-בְּקִרְבָּתְכֶם אֶהְרֹן בְּנֵי שְׁנֵי מוֹת אַחֲרָי מוֹשֶׁה אֶל-יְהוָה וַיְדַבֵּר 1  
सामने उनके निकट आने में हारून बेटों दो मरने उसके बाद मूसा को यहोवा और-बोला  
H6440 H7126 H0175 H8147 H4194 H4872 H0413 H3068 H1696  
:וַיָּמָתוּ יְהוָה  
और-वे मरे यहोवा  
H4191 H3068

हारून के दो पुत्र यहोवा को सुगन्ध भेंट चढ़ाते समय मर गए थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा,

2  
עֵת בְּכָל-יָבֵא וְאֶל-אַחֵיוֹ אֶהְרֹן אֶל-דַּבָּר מוֹשֶׁה אֶל-יְהוָה וַיֹּאמֶר 2  
समय में-सब वह आए और-नहीं अपने भाई हारून को बोल मूसा को यहोवा और-कहा  
H6256 H3605 H0935 H0408 H0251 H0175 H0413 H1696 H4872 H0413 H3068 H0559  
וְלֹא-וְהָאֵרֹן עַל-אֲשֶׁר הַכִּפָּרֶת פְּנֵי אֶל-לְפָרֶקֶת מִבֵּית הַקֹּדֶשׁ אֶל- 3  
और-नहीं संदूक पर जो प्रायश्चित्त का ढक्कन सामने को परदे भीतर से पवित्र स्थान को  
H3808 H0727 H3727 H6440 H0413 H6532 H6944 H0413  
:וַיִּמָּוֶת כִּי-בְעֵנָן אֶרְאֶה עַל- 4  
प्रायश्चित्त के ढक्कन पर मैं दिखाई दूंगा मैं-बादल क्योंकि वह मरे  
H3727 H7200 H6051 H4191

“अपने भाई हारून से बात करो कि वह जब चाहे तब पर्दे के पीछे महापवित्र स्थान में नहीं जा सकता है। उस पर्दे के पीछे जो कमरा है उसमें पवित्र सन्दूक रखा है। उस पवित्र सन्दूक के ऊपर उसका विशेष ढक्कन लगा है। उस विशेष ढक्कन के ऊपर एक बादल में प्रकट होता हूँ। यदि हारून उस कमरे में जाता है तो वह मर जायेगा!

3  
בְּזֹאת יָבֵא אֶהְרֹן וְלֹא-לְעֹלָה: 3  
इसमें आएगा हारून को होमबलि के लिए और-मेढ़ा पापबलि के लिए पशु बन-में-बैल पवित्र स्थान को  
H1241 H6499 H6944 H0413 H0175 H0935 H2063

“पापसे निस्तार के दिन पवित्र स्थान में जाने के पहले हारून को पापबलि के रूप में एक बछड़ा और होमबलि के लिए एक मेढ़ा भेंट करना चाहिए।

4  
כְּתֹנֶת-בָּד קָדֵשׁ וְיִלְבָּשׁ וּמִכְנָסִי-בָד יְהִיוּ עַל-בְּשָׂרוֹ וּבְאֵזְנוֹתָיִךְ 4  
कुर्ता-पवित्र सन सन वह पहनेगा वह पहनेगा सन  
H0906 H0073 H1320 H1961 H0906 H4370 H3847 H6944 H0906 H3801  
וְהָאֵרֹן עַל-אֲשֶׁר הַכִּפָּרֶת פְּנֵי אֶל-לְפָרֶקֶת מִבֵּית הַקֹּדֶשׁ אֶל- 3  
अपने शरीर को में-जल और-नहाएगा वे पवित्र वस्त्र-वह लपेटेगा सन और-में-पगड़ी वह बाँधेगा  
H1320 H0853 H4325 H7364 H1992 H6944 H6801 H0906 H4701 H2296  
:וְלִבְשָׁם: 4  
और-पहनेगा  
H3847

हारून अपने पूरे शरीर को पानी डालकर धोएगा। तब हारून इन वस्त्रों को पहनेगा: हारून पवित्र सन के वस्त्र पहनेगा। सन के निचले वस्त्र शरीर से सटे होंगे। उसकी पेटी सन का पट्टा होगी। हारून सन की पगड़ी बाँधेगा। ये पवित्र वस्त्र हैं।

5 וּמֵאֵת עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יִקַּח שְׁנֵי-בָקָרִים שְׁעִירֵי עִזִּים לַחֲטָאת וְאֶחָד אֶחָד  
 और-से और-मंडली के पुत्रों के लिए दो-लेगा इस्राएल इस्राएल के पुत्रों के लिए एक और-मेढ़ा पापबलि के लिए बकरियों बकरे

[H0259](#)

[H5795](#)

[H8147](#)

[H3947](#)

[H3478](#)

[H5712](#)

[H0853](#)

לְעֹלָה:  
 होमबलि के लिए

“हारून को इस्राएल के लोगों से दो बकरे पापबलि के रूप में और एक मेढ़ा होमबलि के लिए लेना चाहिए।

6 וְהִקְרִיב אֹהֶרֶן הָאֱהֲרֹן אֶת-בַּעֲדָו וְהִקְרִיב אֹהֶרֶן אֶת-בַּעֲדָו וְהִקְרִיב אֹהֶרֶן אֶת-בַּעֲדָו וְהִקְרִיב אֹהֶרֶן אֶת-בַּעֲדָו  
 और-चढ़ाएगा और-अपने लिए अपने लिए और-प्रायश्चित्त करेगा उसका जो-पापबलि बैल को हारून को हारून और-चढ़ाएगा

[H1157](#)

[H1157](#)

[H6499](#)

[H0853](#)

[H0175](#)

[H7126](#)

בֵּיתוֹ:  
 अपने घर

तब हारून बैल की पापबलि चढ़ाएगा। यह पापबलि उसके अपने लिए और उसके परिवार के लिए है। तब हारून वह उपासना करेगा जिसमें वह औ उसका परिवार शुद्ध होंगे।

7 וְלָקַח אֶת-שְׁנֵי הַשְּׂעִירִים וְהִעֲמִיד אֹתָם לְפָנַי יְהוָה פְּתַח אֹהֶל מוֹעֵד:  
 और-लेगा और-को दो बकरों और-खड़ा करेगा उन्हें सामने यहीवा द्वार तम्बू मिलाप

[H4150](#)

[H0168](#)

[H6607](#)

[H3068](#)

[H6440](#)

[H0853](#)

[H5975](#)

[H8147](#)

[H0853](#)

[H3947](#)

“इसके बाद हारून दो बकरे लेगा और मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यबोवा के सामने लाएगा।

8 וְנָתַן אֹהֶרֶן עַל-שְׁנֵי הַשְּׂעִירִים גּוֹרְלוֹת גּוֹרְלוֹת גּוֹרְלוֹת גּוֹרְלוֹת גּוֹרְלוֹת  
 और-डालेगा और-हारून पर दो बकरों चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ चिट्ठी चिट्ठी और-चिट्ठी

[H0259](#)

[H1486](#)

[H3068](#)

[H0259](#)

[H1486](#)

[H1486](#)

[H8147](#)

[H0175](#)

[H5414](#)

לְעֹזָאֵל:  
 अजाजेल के लिए  
[H5799](#)

हारून दोनों बकरों के लिए चिट्ठी डालेगा। एक चिट्ठी यहीवा के लिए होगी। दूसरी चिट्ठी अजाजेल के लिए होगी।

9 וְהִקְרִיב אֹהֶרֶן אֶת-הַשְּׂעִיר אֶת-הַשְּׂעִיר אֶת-הַשְּׂעִיר אֶת-הַשְּׂעִיר אֶת-הַשְּׂעִיר  
 और-चढ़ाएगा और-हारून को बकरे को बकरे को बकरे को बकरे और-बनाएगा और-यहीवा के लिए चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी

[H1157](#)

[H1486](#)

[H3068](#)

[H1486](#)

[H1486](#)

[H5927](#)

[H0853](#)

[H0175](#)

[H7126](#)

“तब हारून चिट्ठी डालकर यहीवा के लिए चुने गए बकरे की भेंट चढ़ाएगा। हारून को इस पगरे को पापबलि के लिये चढ़ाना चाहिए।

10 וְהִשְׂעִיר אֶת-הַשְּׂעִיר אֶת-הַשְּׂעִיר אֶת-הַשְּׂעִיר אֶת-הַשְּׂעִיר  
 और-बकरा और-जो चढ़ा चढ़ा चढ़ा चढ़ा चढ़ा और-बकरा और-सामने जीवित खड़ा किया जाएगा-अजाजेल के लिए चिट्ठी चिट्ठी पर-वह पर-वह पर-वह पर-वह

[H3068](#)

[H6440](#)

[H5975](#)

[H5799](#)

[H1486](#)

[H5927](#)

הַמִּדְבָּרָה:  
 जंगल में

לְעֹזָאֵל:  
 अजाजेल के लिए

אֹתוֹ:  
 उसे

לְשַׂחַח:  
 भेजने के लिए

עָלָיו:  
 पर-वह

לְכַפֵּר:  
 प्रायश्चित्त करने के लिए

[H5799](#)

[H0853](#)

[H7971](#)

किन्तु चिट्ठी डालकर अजाजेल के लिए चुना गया बकरा यहीवा के सामने जीवित लाया जाना चाहिए। याजक उसे शुद्ध बनाने के लिये उपासना करेगा। तब यह बकरा मरुभूमि में अजाजेल के पास भेजा जाएगा।

11 וְהִקְרִיב אֹהֶרֶן אֶת-בַּעֲדָו וְהִקְרִיב אֹהֶרֶן אֶת-בַּעֲדָו וְהִקְרִיב אֹהֶרֶן אֶת-בַּעֲדָו  
 और-चढ़ाएगा और-अपने लिए अपने लिए और-प्रायश्चित्त करेगा उसका जो-पापबलि बैल को हारून और-चढ़ाएगा

[H1157](#)

[H1157](#)

[H6499](#)

[H0853](#)

[H0175](#)

[H7126](#)

לְוֹ:  
 उसका

אֶת-:  
 जो-

הַחֲטָאת:  
 पापबलि

פָּר:  
 बैल

אֶת-:  
 को

וְשַׁחַח:  
 और-मारेंगा

בֵּיתוֹ:  
 अपने घर

[H6499](#)

[H0853](#)

“तब हाारून अपने लिये बैल को पापबलि के रूप में चढ़ाएगा। हाारून अपने आप को और अपने परिवार को शुद्ध करेगा। हाारून बैल को अपने लिए पापबलि के रूप में मारेगा।

12	וּלְקַח और-लेगा	מִלֵּא- भरा-	הַמִּחְתָּה अंगीठी	גִּחְלִי- कोयले-	אֵשׁ आग	מֵעַל से-पर	הַמִּזְבֵּחַ वेदी	מִלִּפְנֵי सामने से	יְהוָה यहोवा	וּמִלֵּא और-भरा	חֲפָזָיו उसकी मुठ्ठियाँ
	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H4393</a>	<a href="#">H4289</a>	<a href="#">H1513</a>	<a href="#">H0784</a>		<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4393</a>	<a href="#">H2651</a>

קָטַרְתָּ धूप	סָמִים सुगन्धित	דָּקָה सूक्ष्म	וְהִבִּיא और-लाएगा	מִבֵּית भीतर से	לְפָרְקֶת: परदे
<a href="#">H7004</a>	<a href="#">H5561</a>	<a href="#">H1851</a>	<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H6532</a>

तब उसे आग के लिए एक तसला वेदी के अंगारों से भरा हुआ यहोवा के सामने लाना चाहिए। हाारून दो मुट्ठी वह मधुर सुगन्धि धूप लेगा जो बारीक पीसी गई है। हाारून को पर्दे के पीछे कमरे में उस सुगन्धित को आग में डालना चाहिए।

13	וַיִּתֵּן और-डालेगा	אֶת- को	הַקָּטָרֶת धूप	עָנָן बादल	וְכֹסֶה और-ढकेगा	יְהוָה यहोवा	לִפְנֵי सामने	הָאֵשׁ आग	עַל- पर	הַקָּטָרֶת धूप	אֶת- को
	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7004</a>	<a href="#">H6051</a>	<a href="#">H3680</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0784</a>		<a href="#">H7004</a>	<a href="#">H0853</a>

הַכֹּפֶרֶת प्रायश्चित्त के ढक्कन	אֲשֶׁר जो	עַל- पर	הָעֵדוּת साक्षी	וְלֹא और-नहीं	יָמוּת: वह मरेगा
<a href="#">H3727</a>			<a href="#">H5715</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4191</a>

तब सुगन्धित धूप के धुएँका बादन साक्षीपत्र के ऊपर के विशेष ढक्कन को ढक लेगा। इस प्रकार हाारून नहीं मरेगा।

14	וּלְקַח और-लेगा	מִדָּם से-लहू	הַבָּר बैल	וְהִזָּה और-छिड़केगा	בְּאֶזְבְּעוֹ अपनी उंगली से	עַל- पर	פְּנֵי सामने	הַכֹּפֶרֶת प्रायश्चित्त के ढक्कन	קִדְמָה पूरव	וּלִפְנֵי और-सामने
	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H0676</a>		<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3727</a>	<a href="#">H7004</a>	<a href="#">H6440</a>

הַכֹּפֶרֶת प्रायश्चित्त के ढक्कन	יְהוָה छिड़केगा	שִׁבְעֵ- सात-	פְּעָמַיִם बार	מִן- से-	הָרֵגִים लहू	בְּאֶזְבְּעוֹ: अपनी उंगली से
<a href="#">H3727</a>		<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H6471</a>		<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H0676</a>

साथ ही साथ हाारून को बैल का कुछ खून लेना चाहिए और उसे अपनी उँगली से उस विशेष ढक्कन के पूर्व की ओर छिड़कना चाहिए। इस के सामने वह अपनी उँगली से सात बार खून छिड़केगा।

15	וַיִּשְׁחָט और-मारेगा	אֶת- को	שְׂעִיר बकरे	הַחֹטְאָת पापबलि	אֲשֶׁר जो	לְעֵם जनता के लिए	וְהִבִּיא और-लाएगा	אֶת- को	דָּמּוֹ उसका लहू	אֶל- को	מִבֵּית भीतर से
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>					<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H0413</a>	

לְפָרְקֶת परदे	וְעָשָׂה और-करेगा	אֶת- को	דָּמּוֹ उसके लहू	כַּאֲשֶׁר जैसा	עָשָׂה किया	לָרֵגִים को-लहू	הַבָּר बैल	וְהִזָּה और-छिड़केगा	אֵתוֹ उसे	עַל- पर
<a href="#">H6532</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H1818</a>		<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H0853</a>	

הַכֹּפֶרֶת प्रायश्चित्त के ढक्कन	וּלִפְנֵי और-सामने	הַכֹּפֶרֶת प्रायश्चित्त के ढक्कन
<a href="#">H3727</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3727</a>

“तब हाारून को लोगों के लिए पापबलि स्वरूप बकरे को मारना चाहिए। रहाारून को बकरे का खून पर्दे के पीछे कमरे में लाना चाहिए। हाारून को बकरे के खून से वैसा ही करना चाहिए जैसा बैल के खून से उसने किया। हाारून को उस ढक्कन पर और ढक्कन के साने बकरे का खून छिड़कना चाहिए।

16	וְכִפֵּר और-प्रायश्चित्त करेगा	עַל- पर	הַקֹּדֶשׁ पवित्र स्थान	מִטְמְאָת से-अशुद्धताओं	בְּנֵי इसाएल के पुत्रों	יִשְׂרָאֵל इसाएल	וּמִפְשְׁעֵיהֶם और-से-उनके अपराधों	לְכָל- के सब के लिए-
			<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H2932</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H6588</a>	<a href="#">H3605</a>

חֹטְאָתָם उनके पापों	וְכֵן और-ऐसे	יַעֲשֶׂה करेगा	לְאַהֲלָ के लिए-तम्बू	מוֹעֵד मिलाप	הַשְּׂכָן निवास करने वाला	אִתָּם उनके साथ	בְּתוֹךְ में-बीच	טְמֵאָתָם: उनकी अशुद्धताओं
			<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H7931</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H2932</a>

ऐसा अनक बार हुआ जब इसाएल के लोग अशुद्ध हुए। इसलिए हाारून इसाएल के लोगों के अपराध और पाप से महापवित्र स्थान को शुद्ध करने के लिए उपासना करेगा। हाारून को ये काम क्यों करना चाहिए क्योंकि मिलापवाला तम्बू अशुद्ध लोगों के बीच में स्थित है।

17 וְכָל-אָדָם לֹא-וַיְהִי בְּאֵהָל מוֹעֵד בְּבֹאֵי לְכַפֵּר בְּקִרְשׁ עֵד- 17  
 और-सब आदमी नहीं होगा में-तम्बू में-पवित्र स्थान प्रायश्चित करने के लिए उसके आने में तब तक  
[H5704](#) [H6944](#) [H0935](#) [H4150](#) [H0168](#) [H1961](#) [H3808](#) [H0120](#) [H3605](#)

זָאתוּ וְכִפֹּר בְּעֵדוֹ וּבְעֵד וּבְעֵד בֵּיתוֹ וְכָל-קָהָל יִשְׂרָאֵל: 17  
 उसके निकलने और-प्रायश्चित करेगा अपने लिए अपने लिए अपने घर और-अपने लिए सब-सभा इसाएल  
[H3478](#) [H6951](#) [H3605](#) [H1157](#) [H1157](#) [H1157](#) [H3318](#)

“जिस समय हारून महापवित्र स्थान को शुद्ध करे, उस समय कोई व्यक्ति मिलापवाले तम्बू में नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसके भीतर तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक हारून बाहर न आ जाय। इस प्रकार हारून अपने को और अपने परिवार को शुद्ध करेगा और तब इस्राएल के सभी लोगों को शुद्ध करेगा।

18 וַיִּזְאָ אֶל-הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר לִפְנֵי-יְהוָה וַיֹּאמֶר עָלָיו וְלָקַח מִדָּם הַפָּר 18  
 और-जाएगा को वेदी जि सामने-यहोवा और-प्रायश्चित करेगा पर-वह और-लेगा और-लहू बैल  
[H6499](#) [H1818](#) [H3947](#) [H3068](#) [H6440](#) [H4196](#) [H0413](#) [H3318](#)

וּמִדָּם הַשְּׂעִיר וְנָתַן עַל-קַרְנֹת הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב: 18  
 और-से-लहू बकरे और-डालेगा पर सींगों वेदी चारों ओर  
[H5439](#) [H4196](#) [H5414](#) [H1818](#)

तब हारून वेदी को शुद्ध करेगा। हारून बैल का कुछ खून और कुछ बकरे का खून लेकर वेदी के कोनों पर चारों ओर लगाएगा।

19 וַיִּזְאָ וַיֹּאמֶר עָלָיו מִן-הָרֶם וְקִדְּשׁוּ 19  
 और-छिड़केगा और-छिड़केगा पर-वह से-लहू और-पवित्र करेगा और-शुद्ध करेगा बार सात अपनी उंगली से लहू  
[H6942](#) [H2891](#) [H6471](#) [H7651](#) [H0676](#) [H1818](#)

מִטְּמֵאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: 19  
 से-अशुद्धताओं इसाएल के पुत्रों  
[H3478](#) [H2932](#)

तब हारून कुछ खून अपनी उँगली से वेदी पर सात बार छिड़गा। इस प्रकार हारून इस्राएल के लोगों के सभी पापों से वेदी को शुद्ध और पवित्र करेगा।

20 וְכִלְהָ וּמִכֹּפֶר אֶת-הַקֹּדֶשׁ וְאֶת-אֹהֶל מוֹעֵד וְאֶת-הַמִּזְבֵּחַ 20  
 और-जब वह समाप्त करेगा से-प्रायश्चित करने को पवित्र स्थान और-को तम्बू और-को और-को वेदी  
[H4196](#) [H0853](#) [H4150](#) [H0168](#) [H0853](#) [H6944](#) [H0853](#) [H3615](#)

וְהִקְרִיב אֶת-הַשְּׂעִיר וְהָחִי: 20  
 और-चढ़ाएगा को बकरे जीवित  
[H0853](#) [H7126](#)

“हारून महापवित्र स्थान, मिलापवाले तम्बू तथा वेदी को पवित्र बनाएगा। इन कामों के बाद राहून यहोवा के पास बकरे को जीवित लाएगा।

21 וְסִמְּךָ וְאָהָרְן אֶת-שְׁתֵּי יָדָיו (וְיָדָיו) עַל-רֹאשׁ הַשְּׂעִיר וְחַיִּי 21  
 और-रखेगा और-रखेगा हासून को दो हाथों हाथों अपने हाथ पर सिर बकरे जीवित और-अंगीकार करेगा  
[H3034](#) [H3027](#) [H3027](#) [H8147](#) [H0853](#) [H0175](#) [H5564](#)

עָלָיו אֶת-כָּל-עֹנֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת-כָּל-פְּשָׁעֵיהֶם לְכָל-חַטָּאתָם 21  
 पर-वह को सब-अपराधों अपराधों इसाएल के पुत्रों और-को सब-उनके अपराधों उनके लिए-उनके पापों  
[H3605](#) [H5771](#) [H3605](#) [H0853](#) [H3605](#) [H6588](#) [H3605](#) [H0853](#) [H3478](#)

וְנָתַן אֹתָם עַל-רֹאשׁ הַשְּׂעִיר וְשָׁלַח מִן-הַיָּד אִישׁ אֶת-עֵתִי הַיָּמִּי: 21  
 और-डालेगा उन्हें पर सिर बकरे और-भेजेगा और-हाथ में-हाथ आदमी तैयार जंगल में  
[H0853](#) [H5414](#) [H0376](#) [H3027](#) [H7971](#)

हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे के सिर पर रखेगा। तब हासून बकरे के ऊपर इस्राएल के लोगों के अपराध और पाप को कबूल करेगा। इस प्रकार हासून लोगों के पापों को बकरे के सिर पर डालेगा। तब वह बकरे को दूर मरुभूमि में भेजेगा, एक व्यक्ति बगल में बकरे को ले जाने के लिए खड़ा रहेगा।

אֶת- को	וְשִׁלַּח और-भेजेगा	גִּזְרָה कटी हुई	אֶרֶץ देश	אֶל- को	עֲוֹנָתָם उनके अपराधों	כָּל- सब-	אֶת- को	עָלָיו पर-वह	הַשְּׂעִיר बकरा	וְנִשָּׂא और-उठाएगा	22
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H1509</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>			<a href="#">H5375</a>	

הַשְּׂעִיר בְּמִדְבָּר:  
में-जंगल बकरे

इस प्रकार बकरा सभी लोगों के पाप अपने ऊपर सूनी मरुभूमि में ले जाएगा। जो व्यक्ति बकरे को ले जाएगा वह मरुभूमि में उसे खुला छोड़ देगा।

בְּבֹאוֹ उसके आने में	לְבַשׁ पहना	אֶשֶׁר जो	הַבָּד सन	בְּגָדָיו वस्त्र	אֶת- को	וּפָשַׁט और-उतारेगा	מוֹעֵד मिलाप	אֶהָל तम्बू	אֶל- को	אֶהָרֹן हारून	וּבָא और-आएगा	23
<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3847</a>		<a href="#">H0906</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6584</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H0935</a>	

אֶל-  
को
 הַקֹּדֶשׁ पवित्र स्थान | וְהִנִּיחָם और-रखेगा | שָׁם: वहाँ | [H8033](#) | [H3240](#) | [H6944](#) | [H0413](#) |

“तब हारून मिलापवाले तम्बू में जाएगा। वह सन के उन वस्त्रों को उतारेगा जिन्हें उसने महपवित्र स्थान में जाते समय पहना था। उसे उन वस्त्रों को वहीं छोड़ना चाहिए।

וַיָּבֵא और-जाएगा	בְּגָדָיו अपने वस्त्र	אֶת- को	וְלָבַשׁ और-पहनेगा	קְרוֹשׁ पवित्र	בְּמִקּוֹם में-स्थान	בַּמַּיִם में-जल	בְּשָׂרוֹ अपने शरीर	אֶת- को	וַרְחִיץ और-नहाएगा	24
<a href="#">H3318</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3847</a>	<a href="#">H6918</a>	<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7364</a>	

הָעָם: जनता	וּבִעֵד और-अपने लिए	בְּעָדָו अपने लिए	וְכִפֶּר और-प्रायश्चित्त करेगा	הָעָם जनता	עֲלֵת होमबलि	וְאֶת- और-को	עֲלֵתוֹ अपनी होमबलि	אֶת- को	וְעָשָׂה और-करेगा	<a href="#">H1157</a>	<a href="#">H1157</a>	<a href="#">H0853</a>
----------------	------------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------------	------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

वह अपने पूरे शरीर को पवित्र स्थान में पानी डालकर धोएगा। तब वह अपने अन्य विशेष वस्त्रों को पहनेगा। वह बाहर आएगा और अपने लिये होमबलि और लोगों के लिये होमबलि चढ़ाएगा। वह अनपे को तथा लोगों को पापों से मुक्त करेगा।

וְאֵת और-को	חֶרֶב चर्बी	הַחֲטָאִת पापबलि	יִקְטִיר जलाएगा	הַמִּזְבֵּחַ: वेदी पर	25
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2459</a>			<a href="#">H4196</a>	

तब वह वेदी पर पापबलि की चर्बी को जलाएगा।

בְּמַיִם में-जल	בְּשָׂרוֹ अपने शरीर	אֶת- को	וַרְחִיץ और-नहाएगा	בְּגָדָיו अपने वस्त्र	יִכְבֹּס धोएगा	לְעֹזְאֵל अजाजेल के लिए	הַשְּׂעִיר बकरे	אֶת- को	וְהִמְשִׁיחַ और-भेजने वाला	26
<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7364</a>		<a href="#">H3526</a>	<a href="#">H5799</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7971</a>	

וְאֶחָרָיו  
और-उसके बाद
 כֵּן ऐसे | יָבֹא आएगा | אֶל- को | הַמַּחֲנֶה: छावनी | [H4264](#) | [H0413](#) | [H0935](#) |

“जो व्यक्ति बकरे को अजाजेल के पास ले जाए, उस अपने वस्त्र तथा अपने पूरे शरीर को पानी डालकर धोना चाहिए। सके बाद वह व्यक्ति डेरे में आ सकता है।

וְאֵת और-को	בָּר बैल	הַחֲטָאִת पापबलि	וְאֵת- और-को	שְׂעִיר बकरे	הַחֲטָאִת पापबलि	אֶשֶׁר जो	הוּבָא लाया गया	אֶת- को	דָּמָם उसका लहू	27
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H0853</a>				<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1818</a>	

עֲרֹתָם उनकी खाल	אֶת- को	בְּאֵשׁ में-आग	וְשָׂרְפוּ और-जलाएंगे	לְמַחֲנֶה छावनी	מִחוּץ बाहर	אֶל- को	יֹצִיא निकालेगा	בְּקֹדֶשׁ में-पवित्र स्थान	לְכִפֶּר प्रायश्चित्त करने के लिए	<a href="#">H5785</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H8313</a>	<a href="#">H4264</a>	<a href="#">H2351</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H6944</a>
---------------------	------------	-------------------	--------------------------	--------------------	----------------	------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

וְאֵת-  
और-को
 בְּשָׂרָם उनका मांस | וְאֵת- और-को | פְּרָשָׁם: उनकी गोबर | [H6569](#) | [H0853](#) | [H1320](#) | [H0853](#) |

“पापबलि के बैल और बकरे को डेरे के बाहर ले जाना चाहिए। (उन जानवरों का खून पवित्र स्थान में पवित्र चीजों को शुद्ध करने के लिए लाया गया था।) याजक उन जानवरों का चमड़ा, शरीर और शरीर मल आग में जलाएगा।

גַּן ऐसे	וְאַחֲרָיִךְ और-उसके बाद	בַּמַּיִם में-जल	בְּשָׂרְךָ अपने शरीर	אֶת को	וְרַחֲמֵי और-नहाएगा	בְּגָדָיו अपने वस्त्र	יִכְבֹּס धोएगा	אֹתָם उन्हें	וְהַשְׂרָף और-जलाने वाला
		<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7364</a>		<a href="#">H3526</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8313</a>
								הַמַּחֲנֶה: छावनी	אֶל- को
								<a href="#">H4264</a>	<a href="#">H0413</a>
									יָבֹוא आएगा
									<a href="#">H0935</a>

तब उन चीजों को जलाने वाले व्यक्ति को अपने वस्त्र और पूरे शरीर को पानी डालकर धोना चाहिए। उसके बाद वह व्यक्ति डेरे में आ सकात है।

אֶת- को	תֵּעָנֶנּוּ दुखी करोगे	לְחֹדֶשׁ महीने के	בְּעֶשְׂרֵי में-दसवें	הַשָּׁבִיעִי सातवें	בְּחֹדֶשׁ में-महीने	עֹלָם सदा	לְחֻקָּתָם के लिए-विधि	לְכֶם तुम्हारे लिए	וְהִיָּתָה और-होगी
<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H6218</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H2708</a>		<a href="#">H1961</a>
	בְּתוֹכְכֶם: तुम्हारे बीच	הִגֵּר रहने वाला	וְהִגֵּר और-परदेशी	הָאֲזֹרָח देशजात	תַּעֲשֶׂוּ करोगे	לֹא नहीं	מְלֹאכָה काम	וְכָל- और-सब	נַפְשֹׁתֵיכֶם अपने प्राणों
	<a href="#">H8432</a>		<a href="#">H1616</a>	<a href="#">H0249</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4399</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5315</a>

“यह नियम तुम्हारे लिए सदैव रहैगा: सातवें महीने के दसवें दिन तुम्हें उपवास करना चाहिए। तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ रहने वाले यात्री या विदेशी भी कोई काम नहीं कर सगेंगे।

יְהוָה यहोवा	לְפָנָי सामने	חֹטְאֵיכֶם तुम्हारे पापों	מִכָּל- से-सब	אֶתְכֶם तुम्हें	לְטַהֵר शुद्ध करने के लिए	עַל־יְכֶם तुम्हारे पर	יִכְפֹּר प्रायश्चित्त करेगा	הַזֶּה इस	בַּיּוֹם में-दिन	כִּי- क्योंकि-
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6440</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2891</a>			<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H3117</a>	
										תִּטְהָרוּ: तुम शुद्ध होगे
										<a href="#">H2891</a>

क्यों क्योंकि इस दिन याजक तुम्हें शुद्ध करता है और तुम्हारे पापों को धोता है। तब तुम यहोवा के लिए शुद्ध होगे।

עֹלָם: सदा	חֻקָּתָם विधि	נַפְשֹׁתֵיכֶם अपने प्राणों	אֶת- को	וְעֵינֵיכֶם और-दुखी करोगे	לְכֶם तुम्हारे लिए	הִיא वह	שְׁבִתוֹן विश्राम	שֶׁבֶת शाबात
<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H2708</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H0853</a>			<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H7677</a>	<a href="#">H7676</a>

यह दिन तुम्हारे लिए आराम करने का विशेष दिन है। तुम्हें इस दिन उपवास करना चाहिए। यह नियम सदैव के लिए होगा।

יָדוֹ उसके हाथ	אֶת- को	יִמְלֵא भरेगा	וְאָשַׁר और-जो	אֹתוֹ उसे	יִמְשַׁח अभिषेक करेगा	אֶשְׂרָ- जो-	הַכֹּהֵן याजक	וְכִפֹּר और-प्रायश्चित्त करेगा
<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4390</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4886</a>		<a href="#">H3548</a>	
הַקֹּדֶשׁ: पवित्र	בְּגָדָיו वस्त्र	הַבֶּדֶד सन	בְּגָדָיו वस्त्र	אֶת- को	וְלָבַשׁ और-पहनेगा	אָבִיו अपने पिता	תַּחַת तहत	לְכַהֵן याजकाई करने के लिए
<a href="#">H6944</a>		<a href="#">H0906</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3847</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H3547</a>

“सो वह पुरुष जो महायाजक बनने के लिए अभिषिक्त है, वस्तुओं को शुद्ध करने की उपासना को सम्पन्न करेगा। यह वही पुरुष है जिसे उसके पिता की मृत्यु के बाद महायाजक के रूप में सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। उस याजक को सन के पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए।

יִכְפֹּר प्रायश्चित्त करेगा	הַמִּזְבֵּחַ वेदी	וְאֶת- और-को	מוֹעֵד मिलाप	אֶהָל- तम्बू	וְאֶת- और-को	הַקֹּדֶשׁ परम पवित्र	מִקְדָּשׁ पवित्र स्थान	אֶת- को	וְכִפֹּר और-प्रायश्चित्त करेगा
	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H4720</a>	<a href="#">H0853</a>	
				יִכְפֹּר: प्रायश्चित्त करेगा	הַקֹּהֵל सभा	עַם जनता	כָּל- सब-	וְעַל- और-पर	הַכֹּהֲנִים याजकों
					<a href="#">H6951</a>		<a href="#">H3605</a>		וְעַל- और-पर
									<a href="#">H3548</a>

उसे पवित्र स्थान, मिलापवाले तम्बू और वेदी को शुद्ध करना चाहिए और उसे याजक और इस्राएल के सभी लोगों को शुद्ध करना चाहिए।

יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	עַל-	לְכַפֵּר	עוֹלָם	לְחַקֵּת	לְכֶם	זֶאת	וַיְהִי־הָ	
इसाएल	इसाएल के पुत्रों	पर	प्रायश्चित करने के लिए	सदा	के लिए-विधि	तुम्हारे लिए	यह	और-होगी-	
<a href="#">H3478</a>				<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H2708</a>		<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H1961</a>	
פ	מֹשֶׁה:	אֶת-	יְהוָה	צָוָה	כַּאֲשֶׁר	וַיַּעַשׂ	בְּשָׁנָה	אֶחָת	חַטָּאוֹתָם
—	मूसा	को	यहोवा	आज्ञा दी	जैसा	और-किया	में-वर्ष	एक	उनके पापों
	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6680</a>			<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3605</a>

इसाएल के लोगों को शुद्ध करे का यह नियम सदैव रहेगा। इसाएल के लोगों के पाप के निस्तार के लिए तुम उन क्रियाओं को वर्ष में एक बार करोगे।” इसलिए उन्होंने वही किया जो यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।